

श्री अहिच्छत्र-पार्श्वनाथ-जिन पूजा
Srī Ahicchatra-Pārśvanātha-Jina Pūjā

कविश्री कल्याणकुमार जैन 'शशि'
Kaviśrī Kalyāṇakumāra jain 'śaśī'

हे! पार्श्वनाथ करुणानिधान महिमा महान् मंगलकारी |
शिवभर्तारी सुखभंडारी सर्वज्ञ सुखारी त्रिपुरारी ||
तुम धर्मसेत करुणानिकेत आनंदहेत अतिशयधारी |
तुम चिदानंद आनंदकंद दुःख-द्वंद-फंद संकटहारी ||
आवाहन करके आज तुम्हें अपने मन में पधराऊंगा |
अपने उर के सिंहासन पर गद-गद हो तुम्हें बिठाऊंगा ||
मेरा निर्मल-मन टेर रहा हे नाथ! हृदय में आ जाओ |
मेरे सूने मन-मंदिर में पारस भगवान् समा जाओ ||

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर संवोषट्! (आह्वाननम्)

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः!(स्थापनम्)

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्! (सन्निधिकरणम्)

Hē! pārśvanātha karuṇānidhāna mahimā mahān maṅgalakārī |

Śivabhartārī sukhabhaṇḍārī sarvajña sukhārī tripurārī ||

Tuma dharmasēta karuṇānikēta ānandahēta atīśayadhārī |

Tuma cidānanda ānandakanda du:Kha-dvanda-phanda saṅkaṭahārī ||

Āvāhana karakē āja tumhēm apanē mana mēm padharā'ūṁgā |

Apanē ura kē sinhāsana para gada-gada hō tumhēm biṭhā'ūṁgā ||

Mērā nirmala-mana ṭēra rahā hē nātha! Hṛdaya mēm ā jā'ō |

Mērē sūnē mana-mandira mēm pārāsa bhagavān samā jā'ō ||

Om hrīm śrīpārśvanāthajinēndra! Atrā avatara avatara sanvaṣaṭ! (āhvānanam)

Om hrīm śrīpārśvanāthajinēndra! Atrā tiṣṭha tiṣṭha ṭha: ṭha:!(sthāpanam)

Om hrīm śrīpārśvanāthajinēndra! Atrā mama satrihitō bhava bhava vaṣaṭ (satrihikaraṇam)

भव वन में भटक रहा हूँ मैं, भर सकी न तृष्णा की खाई |
भवसागर के अथाह दुःख में, सुख की जल-बिंदु नहीं पाई ||
जिस भाँति आपने तृष्णा पर, जय पाकर तृषा बुझाई है |
अपनी अतृप्ति पर अब तुमसे, जय पाने की सुधि आई है ||

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय जन्म-जरा-मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

Bhavavāna mēm bhaṭaka rahā hūṁ mairm, bhara sakī na tṛṣṇā kī khāi |

Bhavasāgara kē athāha du:Kha mēm, sukha kī jala-bindu nahīm pāi ||

Jisa bhāmīti āpanē tṛṣṇā para, jaya pākara tṛṣā bujhāi hai |

Apanī atṛpti para aba tumasē, jaya pānē kī sudhi āi hai ||

Ōm hrīm śrīpārsvanāthajinēndrāya janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalam nirvapāmīti svāhā |1|

क्रोधित हो क्रूर कमठ ने जब, नभ से ज्वाला बरसाई थी |

उस आत्मध्यान की मुद्रा में, आकुलता तनिक न आई थी ||

विघ्नों पर बैर-विरोधों पर, मैं साम्यभाव धर जय पाऊँ |

मन की आकुलता मिट जाये, ऐसी शीतलता पा जाऊँ ||

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय संसारताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Krōdhita hō krūra kamaṭha nē jaba, nabha sē jvālā barasāi thī |

Usa ātmadhyāna kī mudrā mēm, ākulatā tanika na āi thī ||

Vighnōm para baira-virōdhōm para, maim sām̐yabhāva dhara jaya pā'ūṁ |

Mana kī ākulatā miṭa jāyē, aisī śītalatā pā jā'ūṁ ||

Ōm hrīm śrīpārsvanāthajinēndrāya sansāratāpa-vināśanāya candanam nirvapāmīti svāhā |2|

तुमने कर्मों पर जय पाकर, मोती सा जीवन पाया है |

यह निर्मलता में भी पाऊँ, मेरे मन यही समाया है ||

यह मेरा अस्तव्यस्त जीवन, इसमें सुख कहीं न पाता हूँ |

मैं भी अक्षय पद पाने को, शुभ अक्षत तुम्हें चढ़ाता हूँ ||

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।३।

Tumanē karmōm para jaya pākara, mōtī sā jīvana pāyā hai |

Yaha nirmalatā maim bhī pā'ūṁ, mērē mana yahī samāyā hai ||

Yaha mērā astavyasta jīvana, isamēm sukha kahīm na pātā hūṁ |

Maim bhī akṣaya pada pānē kō, śubha akṣata tumhēm caṛhātā hūṁ ||

Ōm hrīm śrīpārsvanāthajinēndrāya akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā |3|

अध्यात्मवाद के पुष्पों से, जीवन फुलवारी महकाई |

जितना-जितना उपसर्ग सहा, उतनी-उतनी दृढ़ता आई ||

मैं इन पुष्पों से वंचित हूँ, अब इनको पाने आया हूँ |

चरणों पर अर्पित करने को, कुछ पुष्प संजोकर लाया हूँ ||

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय कामबाण-विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Adhyātmavāda kē puṣpōm sē, jīvana phulavārī mahakāi |

Jitanā-jitanā upasarga sahā, utanī-utanī dṛṛhatā āi ||

Maim ina puṣpōm sē vañcita hūṁ, aba inakō pānē āyā hūṁ |

Caraṇōm para arpita karanē kō, kucha puṣpa sañjōkara lāyā hūṁ ||

Ōm hrīm śrīpārsvanāthajinēndrāya kāmabāṇa-vidhvansanāya puṣpam nirvapāmīti svāhā |4|

जय पाकर चपल इन्द्रियों पर, अंतर की क्षुधा मिटा डाली |
 अपरिग्रह की आलोक शक्ति, अपने अंदर ही प्रगटा ली ||
 भटकाती फिरती क्षुधा मुझे, मैं तृप्त नहीं हो पाया हूँ |
 इच्छाॐ पर जय पाने को, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ ||

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Jaya pākara capala indriyōm para, antara kī kṣudhā miṭā ḍālī |
 Aparigraha kī ālōka śakti, apanē andara hī pragaṭā lī ||
 Bhaṭakāṭī phiraṭī kṣudhā mujhē, mairṁ tṛpta nahīm hō pāyā hūṁ |
 Icchā'ōm para jaya pānē kō, mairṁ śaraṇa tumhārī āyā hūṁ ||

Om hrīm śrīpārśvanāthajinēndrāya kṣudhārōga-vināśanāya naivēdyam nirvapāmīti svāhā ।5।

अपने अज्ञान अंधेरे में, वह कमठ फिरा मारा-मारा |
 व्यन्तर विक्रियाधारी था पर, तप के उजियारे से हारा ||
 मैं अंधकार में भटक रहा, उजियारा पाने आया हूँ |
 जो ज्योति आप में दर्शित है, वह ज्योति जगाने आया हूँ ||

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय मोहांधकार-विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Apanē ajñāna andhērē mēm, vaha kamaṭha phirā mārā-mārā |
 Vyantara vikriyādhārī thā para, tapa kē ujiyārē sē hārā ||
 Mairṁ andhakāra mēm bhaṭaka rahā, ujjārā pānē āyā hūṁ |
 Jō jyōti āpa mēm darśita hai, vaha jyōti jagānē āyā hūṁ ||

Om hrīm śrīpārśvanāthajinēndrāya mōhāndhakāra-vināśanāya dīpaṁ nirvapāmīti svāhā ।6।

तुमने तप के दावानल में, कर्मों की धूप जलाई है |
 जो सिद्ध-शिला तक जा पहुँची, वह निर्मल गंध उड़ाई है ||
 मैं कर्म बंधनों में जकड़ा, भव-बंधन से घबराया हूँ |
 वसु कर्म दहन के लिये तुम्हें, मैं धूप चढ़ाने आया हूँ ||

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।७।

Tumanē tapa kē dāvānala mēm, karmōm kī dhūpa jalāi hai |
 Jō sid'dha-śilā taka jā pahumcī, vaha nirmala gandha uṛāi hai ||
 Mairṁ karma bandhanōm mēm jakaṛā, bhava-bandhana sē ghabarāyā hūṁ |
 Vasu karma dahana kē liyē tumhēm, mairṁ dhūpa caṛhānē āyā hūṁ ||

Om hrīm śrīpārśvanāthajinēndrāya aṣṭakarma-dahanāya dhūpaṁ nirvapāmīti svāhā ।7।

तुम महा तपस्वी शांतिमूर्ति, उपसर्ग तुम्हें न डिगा पाये |
 तप के फल ने पद्मावति अरु, इन्द्रों के आसन कंपाये ||
 ऐसे उत्तम फल की आशा मैं, मन में उमड़ी पाता हूँ |
 ऐसा शिव सुख फल पाने को, फल की शुभ भेंट चढ़ाता हूँ ||

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।८।

Tuma mahātapasvī śāntimūrti, upasarga tumhēm na ḍigā pāyē |
Tapa kē phala nē padmāvati aru, indrōm kē āsana kampāyē ||
Aisē uttama phala kī āśā mairm, mana mēm umaṛi pātā hūm |
Aisā śiva sukha phala pānē kō, phala kī śubha bhēṅṭa caṛhātā hūm ||

Om hrīm śrīpārśvanāthajinēndrāya mōkṣaphala-prāptayē phalaṁ nirvapāmīti svāhā |8|

संघर्षों में उपसर्गों में, तुमने समता का भाव धरा |
आदर्श तुम्हारा अमृत-बन, भक्तों के जीवन में बिखरा ||
में अष्टद्रव्य से पूजा का, शुभ अर्घ्य बना कर लाया हूँ |
जो पदवी तुमने पाई है, मैं भी उस पर ललचाया हूँ ||

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।९।

Saṅgharṣō mēm upasargō mēm, tumanē samatā kā bhāva dharā |
Ādarśa tumhārā amṛta-bana, bhaktōm kē jīvana mēm bikharā ||
Mairm aṣṭadravya sē pūjā kā, śubha arghya banā kara lāyā hūm |
Jō padavī tumanē pārī hai, mairm bhī usa para lalacāyā hūm ||

Om hrīm śrīpārśvanāthajinēndrāya anarghyapada-prāptayē arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |9|

पंचकल्याणक- अर्घ्यावली

Pañcakalyāṅaka- arghyāvālī

(अर्ध नरेन्द्र छंद)

(ardha narēndra chanda)

वैशाख-कृष्ण-द्वितीया के दिन, तुम वामा के उर में आये |
श्री अश्वसेन-नृप के घर में, आनंद भरे मंगल छाये ||

ॐ ह्रीं वैशाख-कृष्ण-द्वितीयायां गर्भमंगल-मंडिताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।१।

Vaiśākha-kṛṣṇa-dvitiyā kē dina, tuma vāmā kē ura mēm āyē |
Śrī aśvasēna-nṛpa kē ghara mēm, ānanda bharē maṅgala chāyē ||

Om hrīm vaiśākha-kṛṣṇa-dvitiyāyām garbhamaṅgala-maṅḍitāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyaṁ nirvapāmīti svāhā |1|

जब पौष-कृष्ण-एकादशि को, धरती पर नया प्रसून खिला |
भूले भटके भ्रमते जग को, आत्मोन्नति का आलोक मिला ||

ॐ ह्रीं पौषकृष्ण-एकादश्यां जन्ममंगल-मंडिताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Jaba pauṣa-kṛṣṇa-ēkādaśi kō, dharatī para nayā prasūna khilā |
Bhūlē bhaṭakē bhramatē jaga kō, ātmōnnati kā ālōka milā ||

*Om hrīm pauṣakṛṣṇa-ĕkādaśyām janmamaṅgala-maṅḍitāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyam
nirvapāmīti svāhā |2|*

**एकादशि- पौष-कृष्ण के दिन, तुमने संसार अथि र पाया ।
दीक्षा लेकर आध्यात्मिक पथ, तुमने तप द्वारा अपनाया ॥**

ॐ ह्रीं पौषकृष्ण -एकादशीदिने तपोमंगल-मंडिताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।३।

**Ēkādaśi- pauṣa-kṛṣṇa kē dina, tumanē sansāra athira pāyā |
Dīkṣā lēkara ādhyātmika patha, tumanē tapa dvārā apanāyā ॥**

*Om hrīm pauṣakṛṣṇa -ĕkādaśīdinē tapōmaṅgala-maṅḍitāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyam
nirvapāmīti svāhā |3|*

**अहिच्छत्र-धरा पर जीभर कर, की क्रूर कमठ ने मनमानी ।
तब कृष्ण-चैत्र-चतुर्थी को, पद प्राप्त किया केवलज्ञानी ॥
यह वंदनीय हो गई धरा, दश भव का बैरी पछताया ।
देवों ने जय जयकारों से, सारा भूमंडल गुँजाया ॥**

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्ण-चतुर्थीदिवसे श्रीअहिच्छत्रातीर्थे ज्ञानसाम्राज्य-प्राप्ताय श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

**Ahicchatra-dharā para jībhara kara, kī krūra kamaṭha nē manamānī |
Taba kṛṣṇa-caitra-caturthī kō, pada prāpta kiyā kēvalajñānī ॥
Yaha vandanīya hō gai dharā, daśa bhava kā bairī pachatāyā |
Dēvōm nē jaya jayakārōm sē, sārā bhūmaṅḍala gumjāyā ॥**

*Om hrīm caitrākṛṣṇa-caturthīdivasē śrīahicchatrātīrthē jñānasāmrajya-prāptāya śrīpārśvanātha
jinēndrāya arghyam nirvapāmīti svāhā |4|*

**श्रावण शुक्ला सप्तमि के दिन, सम्मेद-शिखर ने यश पाया ।
'सुवर्णभद्र' कूट से जब, शिव मुक्तिरमा को परिणाय ॥**

ॐ ह्रीं श्रावणशुक्ल-सप्तम्यां सम्मेदशिखरस्य सुवर्णभद्रकूटात् मोक्षमंगल- मंडिताय श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

**Śrāvaṇa śuklā saptami kē dina, sam'mēda-śikhara nē yaśa pāyā |
'Suvaraṇabhadra' kūṭa sē jaba, śiva muktiramā kō pariṇāyā ॥**

*Om hrīm śrāvaṇaśukla-saptamyām sam'mēdaśikharasya suvaraṇabhadrakūṭāt mōkṣamaṅgala-
maṅḍitāya śrīpārśvanāthajinēndrāya arghyam nirvapāmīti svāhā |5|*

जयमाला Jayamālā

(तर्ज : राधेश्याम)

(tarja: Rādhēśyāma)

सुरनर किन्नर गणधर फणधर, योगीश्वर ध्यान लगाते हैं |
भगवान् तुम्हारी महिमा का, यशगान मुनीश्वर गाते हैं ||१||

Suranara kinnara gaṇadhara phaṇadhara, yōgīśvara dhyāna lagātē hair̥m |
Bhagavān tumhārī mahimā kā, yaśagāna munīśvara gātē hair̥m ||1||

जो ध्यान तुम्हारा ध्याते हैं, दुःख उनके पास न आते हैं |
जो शरण तुम्हारी रहते हैं, उनके संकट कट जाते हैं ||२||

Jō dhyāna tumhārā dhyātē hair̥m, du:kha unakē pāsa na ātē hair̥m |
Jō śaraṇa tumhārī rahatē hair̥m, unakē saṅkaṭa kaṭa jātē hair̥m ||2||

तुम कर्मदली तुम महाबली, इन्द्रिय सुख पर जय पाई है |
मैं भी तुम जैसा बन जाऊँ, मन में यह आज समाई है ||३||

Tuma karmadalī tuma mahābālī, indriya sukha para jaya pāi hai |
Mair̥m bhī tuma jaisā bana jā'ūm̃, mana mēm̃ yaha āja samāi hai ||3||

तुमने शरीर औ' आत्मा के, अंतर स्वभाव को जाना है |
नश्वर शरीर का मोह तजा, निश्चय स्वरूप पहिचाना है ||४||

Tumanē śarīra au' ātmā kē, antara svabhāva kō jānā hai |
Naśvara śarīra kā mōha tajā, niścaya svarūpa pahicānā hai ||4||

तुम द्रव्य-मोह औ' भाव मोह, इन दोनों से न्यारे-न्यारे |
जो पुद्गल के निमित्त कारण, वे राग-द्वेष तुम से हारे ||५||

Tuma dravya-mōha au' bhāva mōha, ina dōnōm̃ sē n'yārē-n'yārē |
Jō pudgala kē nimitta kāraṇa, vē rāga-dvēṣa tuma sē hārē ||5||

तुम पर निर्जर वन में बरसे, ओले-शोले पत्थर-पानी |
आलोक तपस्या के आगे, चल सकी न शठ की मनमानी ||६||

Tuma para nirjara vana mēm̄ barasē, ōlē-sōlē pat'thara-pānī |
Ālōka tapasyā kē āgē, cala sakī na śaṭha kī manamānī ||6||

यह सहन शक्ति का ही बल है, जो तप के द्वारा आया था |
जिसने स्वर्गों में देवों के, सिंहासन को कंपाया था ||७||

Yaha sahana śakti kā hi bala hai, jō tapa kē dvārā āyā thā |
Jisanē svargōm mēm̄ dēvōm̄ kē, sinhāsana kō kampāyā thā ||7||

'अहि' का स्वरूप धरकर तत्क्षण, धरणेन्द्र देवता आया था |
ध्यानस्थ आप के ऊपर प्रभु, फण मंडप बनकर छाया था ||८||

'Ahi' kā svarūpa dharakara tatksṇa, dharaṇēndra devta āyā thā |
Dhyānastha āpa kē ūpara prabhu, phaṇa maṇḍapa banakara chāyā thā ||8||

उपसर्ग कमठ का नष्ट किया, मस्तक पर फण मंडप रचकर |
पद्मादेवी ने उठा लिया, तुमको सिर के सिंहासन पर ||९||

Upasarga kamaṭha kā naṣṭa kiyā, mastaka para phaṇa maṇḍapa racakara |
Padmādēvī nē uṭhā liyā, tumakō sira kē sinhāsana para ||9||

तप के प्रभाव से देवों ने, व्यंतर की माया विनशाई |
पर प्रभो आपकी मुद्रा में, तिलमात्र न आकुलता आई ||१०||

Tapa kē prabhāva sē dēvōm̄ nē, vyantara kī māyā vinaśāi |
Para prabhō āpakī mudrā mēm̄, tilamātra na ākulatā āi ||10||

उपसर्ग का आतंक तुम्हें, हे प्रभु! तिलभर न डिगा पाया |
अपनी विडम्बना पर बैरी, असफल हो मन में पछताया ||११||

Upasarga kā ātaṅka tumhēm̄, hē prabhu! Tilabhara na ḍigā pāyā |
Apanī viḍambanā para bairī, asaphala hō mana mēm̄ pachatāyā ||11||

शठ कमठ बैर के वशीभूत, भौतिक बल पर बौराया था |
अध्यात्म-आत्मबल का गौरव, वह मूर्ख समझ न पाया था ||१२||

Śaṭha kamaṭha baira kē vaśībhūta, bhautika bala para baurāyā thā |
Adhyātma-ātmabala kā gaurava, vaha mūrkhā samajha na pāyā thā ||12||

दश भव तक जिसने बैर किया, पीड़ायें देकर मनमानी |
फिर हार मानकर चरणों में, झुक गया स्वयं वह अभिमानी ||१३||

Daśa bhava taka jisanē baira kiyā, pīṛāyēm dēkara manamānī |
Phira hāra mānakara caraṇōṛṁ mēm, jhuka gayā svayaṁ vaha abhimānī ||13||

यह बैर महा दुःखदायी है, यह बैर न बैर मिटाता है |
यह बैर निरंतर प्राणी को, भवसागर में भटकाता है ||१४||

Yaha baira mahā du:Khadāyī hai, yaha baira na baira miṭātā hai |
Yaha baira nirantara prāṇī kō, bhavasāgara mēm bhaṭakātā hai ||14||

जिनको भव-सुख की चाह नहीं, दुःख से न जरा भय खाते हैं |
वे सर्व-सिद्धियों को पाकर, भवसागर से तिर जाते हैं ||१५||

Jinakō bhava-sukha kī cāha nahīm, du:Kha sē na jarā bhaya khātē haim |
Vē sarva-sid'dhiyōṛṁ kō pākara, bhavasāgara sē tira jātē haim ||15||

जिसने भी शुद्ध मनोबल से, ये कठिन परीषह झेली हैं |
सब ऋद्धि-सिद्धियाँ नत होकर, उनके चरणों पर खेली हैं ||१६||

Jisanē bhī śud'dha manōbala sē, yē kaṭhina paṛīṣaha jhēlī haim |
Saba ṛd'dhi-sid'dhiyām̃ nata hōkara, unakē caraṇōṛṁ para khēlī haim ||16||

जो निर्विकल्प चैतन्यरूप, शिव का स्वरूप तुमने पाया |
ऐसा पवित्र पद पाने को, मेरा अंतर मन ललचाया ||१७||
Jō nirvikalpa caitan'yarūpa, śiva kā svarūpa tumanē pāyā |
Aisā pavitra pada pānē kō, mērā antara mana lalacāyā ||17||

कार्माण-वर्गणायें मिलकर, भव वन में भ्रमण कराती हैं |
जो शरण तुम्हारी आते हैं, ये उनके पास न आती हैं ||१८||
Kārmāṇa-vargaṇāyēm̃ milakara, bhava vana mēm bhramaṇa karātī haim |
Jō śaraṇa tumhārī ātē haim, yē unakē pāsa na ātī haim ||18||

तुमने सब बैर विरोधों पर, समदर्शी बन जय पाई है |
मैं भी ऐसी समता पाऊँ, यह मेरे हृदय समाई है ||१९||

Tumanē saba baira virōdhōm̄ para, samadarśī bana jaya pāi hai |
Mair̄m bhī aisī samatā pā'ūm̄, yaha mērē hṛdaya samāi hai ||19||

अपने समान ही तुम सबका, जीवन विशाल कर देते हो |
तुम हो तिखाल वाले बाबा, जग को निहाल कर देते हो ||२०||
Apanē samāna hī tuma sabakā, jīvana viśāla kara dētē hō |
Tuma hō tikhāla vālē bābā, jaga kō nihāla kara dētē hō ||20||

तुम हो त्रिकाल दर्शी तुमने, तीर्थकर का पद पाया है |
तुम हो महान् अतिशय धारी, तुम में आनंद समाया है ||२१||
Tuma hō trikāla darśī tumanē, tīrthakara kā pada pāyā hai |
Tuma hō mahān atīśaya dhārī, tuma mēm̄ ānanda samāyā hai ||21||

चिन्मूरति आप अनंतगुणी, रागादि न तुमको छू पाये |
इस पर भी हर शरणागत, मन-माने सुख साधन पाये ||२२||
Cinmūrati āpa anantaguṇī, rāgādi na tumakō chū pāyē |
Iṣa para bhī hara śaraṇāgata, mana-mānē sukha sādhanā pāyē ||22||

तुम रागद्वेष से दूर-दूर, इनसे न तुम्हारा नाता है |
स्वयमेव वृक्ष के नीचे जग, शीतल छाया पा जाता है ||२३||
Tuma rāgadvēṣa sē dūra-dūra, inasē na tumhārā nātā hai |
Svayamēva vṛkṣa kē nīcē jaga, śītala chāyā pā jātā hai ||23||

अपनी सुगन्ध क्या फूल कहीं, घर-घर आकर बिखराते हैं!
सूरज की किरणों को छूकर, सुमन स्वयं खिल जाते हैं ||२४||
Apanī sugandha kyā phūla kahīm̄, ghara-ghara ākara bikharātē haim̄ !
Sūraja kī kiraṇōm̄ kō chūkara, sumana svayam̄ khila jātē haim̄ ||24||

भौतिक पारस मणि तो केवल, लोहे को स्वर्ण बनाती है |
हे पार्श्व प्रभो! तुमको छूकर, आत्मा कुंदन बन जाती है ||२५||
Bhautika pārasa maṇi tō kēvala, lōhē kō svarṇa banāṭī hai |
Hē pārsva Prabhō! tumakō chūkara, ātmā kundana bana jāṭī hai ||25||

तुम सर्वशक्तिधारी हो प्रभु, ऐसा बल में भी पाऊँगा ।
यदि यह बल मुझको भी दे दो, फिर कुछ न माँगने आऊँगा ॥२६॥

Tuma sarvaśaktidhārī hō prabhu, aisā bala maiṁ bhī pā'ūṁgā |
Yadiyaha bala mujhakō bhī dē dō, phira kucha na māṁganē ā'ūṁgā ॥26॥

कह रहा भक्ति के वशीभूत, हे दयासिन्धु! स्वीकारो तुम ।
जैसे तुम जग से पार हुये, मुझको भी पार उतारो तुम ॥२७॥
Kaha rahā bhakti kē vaśībhūta, hē dayāsindhu! Svīkāro tuma |
Jaisē tuma jaga sē pāra huyē, mujhakō bhī pāra utārō tuma ॥27॥

जिसने भी शरण तुम्हारी ली, वह खाली न रह पाया है ।
अपनी अपनी आशाओं का, सबने वाँछित फल पाया है ॥२८॥
Jisanē bhī śaraṇa tumhārī lī, vaha khālī na raha pāyā hai |
Apanī apanī āśā'ōṁ kā, sabanē vāṁchita phala pāyā hai ॥28॥

बहुमूल्य सम्पदायें सारी, ध्याने वालों ने पाई हैं ।
पारस के भक्तों पर निधियाँ, स्वयमेव सिमटकर आई हैं ॥२९॥
Bahumūlya sampadāyēṁ sārī, dhyānē vālōṁ nē pāi haiṁ |
Pārasa kē bhaktōṁ para nidhiyāṁ, svayamēva simaṭakara āi haiṁ ॥29॥

जो मन से पूजा करते हैं, पूजा उनको फल देती है ।
प्रभु पूजा भक्त पुजारी के, सारे संकट हर लेती है ॥३०॥
Jō mana sē pūjā karatē haiṁ, pūjā unakō phala dētī hai |
Prabhu pūjā bhakta pujārī kē, sārē saṅkaṭa hara lētī hai ॥30॥

जो पथ तुमने अपनाया है, वह सीधा शिव को जाता है ।
जो इस पथ का अनुयायी है, वह परम मोक्षपद पाता है ॥३१॥
ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय जयमाला-पूर्णाचर्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
Jō patha tumanē apānyā hai, vaha sīdhā śiva kō jātā hai |
Jō isa patha kā anuyāyī hai, vaha parama mōkṣapada pātā hai ॥31॥
Ōṁ hrīm śrīpārśvanāthajinēndrāy jayamālā-pūṁārghyam nirvapāmīti svāhā |

(दोहा)

पार्श्वनाथ-भगवान् को, जो पूजे धर ध्यान |
उसे लोक-परलोक के, मिलें सकल वरदान ||

(Dōhā)

Pāśvanātha-bhagavān kō, jō pūjē dhara dhyāna |
Usē lōka-paralōka kē, milēm sakala varadāna ||

॥ इत्याशीर्वादिः पुष्पांजलिं क्षिपेत् ॥

॥ Ityāśīrvāda: Puṣpāñjalim kṣipēt |

* * * A * * *